



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5068]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 24, 2018/पौष 3, 1940

No. 5068]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 24, 2018/PAUSAH 3, 1940

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6308(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता व्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संघ्या का. आ. 2902(अ.) तारीख 7 सितम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, पैरा 3 में,—

(क) उप पैरा (1) में, सारणी 3.2 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी: 3.3**स्टार रेटिंग योजना की विधिमान्यता (01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक)**

रेटेड इमरत (लीटर)	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
	स्थायी खपत (किलोवॉट घण्टा/24 घण्टा/45°से)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	$\leq 0.426 \> 0.387$	$\leq 0.387 \> 0.352$	$\leq 0.352 \> 0.320$	$\leq 0.320 \> 0.291$	≤ 0.291
10	$\leq 0.534 \> 0.485$	$\leq 0.485 \> 0.441$	$\leq 0.441 \> 0.401$	$\leq 0.401 \> 0.365$	≤ 0.365
15	$\leq 0.614 \> 0.558$	$\leq 0.558 \> 0.507$	$\leq 0.507 \> 0.461$	$\leq 0.461 \> 0.419$	≤ 0.419
25	$\leq 0.748 \> 0.680$	$\leq 0.680 \> 0.618$	$\leq 0.618 \> 0.562$	$\leq 0.562 \> 0.511$	≤ 0.511
35	$\leq 0.855 \> 0.777$	$\leq 0.777 \> 0.706$	$\leq 0.706 \> 0.642$	$\leq 0.642 \> 0.584$	≤ 0.584
50	$\leq 0.988 \> 0.898$	$\leq 0.898 \> 0.816$	$\leq 0.816 \> 0.742$	$\leq 0.742 \> 0.675$	≤ 0.675
70	$\leq 1.121 \> 1.019$	$\leq 1.019 \> 0.926$	$\leq 0.926 \> 0.842$	$\leq 0.842 \> 0.766$	≤ 0.766
100	$\leq 1.280 \> 1.164$	$\leq 1.164 \> 1.058$	$\leq 1.058 \> 0.962$	$\leq 0.962 \> 0.875$	≤ 0.875
140	$\leq 1.441 \> 1.310$	$\leq 1.310 \> 1.191$	$\leq 1.191 \> 1.083$	$\leq 1.083 \> 0.985$	≤ 0.985
200	$\leq 1.601 \> 1.456$	$\leq 1.456 \> 1.323$	$\leq 1.323 \> 1.203$	$\leq 1.203 \> 1.088$	≤ 1.088

(ख) उप पैरा (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उक्त भंडारण प्रकार के विजली के जल हीटर के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के विचार से 01 जनवरी, 2019 से सारणी 3.3 में विनिर्दिष्ट 1 स्टार के लिए 200 लीटर की रेटिंग क्षमता वाले भंडारण प्रकार के विजली के जल हीटर पर विवरणों के संप्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।”

[फा. सं. 13/14/2014-ईसी (खण्ड.-I)]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणि : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2902

(अ) तारीख 7 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात इसमें का.आ. 1385 तारीख 02 मई, 2017 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2018

S.O. 6308(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 2902 (E), dated the 7th September, 2016, namely:—

In the said notification, in paragraph 3,-

(a) in sub-paragraph (1), after Table 3.2, the following Table shall be inserted, namely:-

“TABLE 3.3

Star Rating Plan Validity (from 1st January, 2019 to 31st December, 2020)

Rated Capacity (Liters)	1 star	2 star	3 star	4 star	5 star
	Standing Losses (kWh/24 hour/45°C)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	$\leq 0.426 \& > 0.387$	$\leq 0.387 \& > 0.352$	$\leq 0.352 \& > 0.320$	$\leq 0.320 \& > 0.291$	≤ 0.291
10	$\leq 0.534 \& > 0.485$	$\leq 0.485 \& > 0.441$	$\leq 0.441 \& > 0.401$	$\leq 0.401 \& > 0.365$	≤ 0.365
15	$\leq 0.614 \& > 0.558$	$\leq 0.558 \& > 0.507$	$\leq 0.507 \& > 0.461$	$\leq 0.461 \& > 0.419$	≤ 0.419
25	$\leq 0.748 \& > 0.680$	$\leq 0.680 \& > 0.618$	$\leq 0.618 \& > 0.562$	$\leq 0.562 \& > 0.511$	≤ 0.511
35	$\leq 0.855 \& > 0.777$	$\leq 0.777 \& > 0.706$	$\leq 0.706 \& > 0.642$	$\leq 0.642 \& > 0.584$	≤ 0.584
50	$\leq 0.988 \& > 0.898$	$\leq 0.898 \& > 0.816$	$\leq 0.816 \& > 0.742$	$\leq 0.742 \& > 0.675$	≤ 0.675
70	$\leq 1.121 \& > 1.019$	$\leq 1.019 \& > 0.926$	$\leq 0.926 \& > 0.842$	$\leq 0.842 \& > 0.766$	≤ 0.766
100	$\leq 1.280 \& > 1.164$	$\leq 1.164 \& > 1.058$	$\leq 1.058 \& > 0.962$	$\leq 0.962 \& > 0.875$	≤ 0.875
140	$\leq 1.441 \& > 1.310$	$\leq 1.310 \& > 1.191$	$\leq 1.191 \& > 1.083$	$\leq 1.083 \& > 0.985$	≤ 0.985
200	$\leq 1.601 \& > 1.456$	$\leq 1.456 \& > 1.323$	$\leq 1.323 \& > 1.203$	$\leq 1.203 \& > 1.088$	$\leq 1.088”;$

(b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) The permission for display of particulars on storage type electric water heater up to the rated capacity of 200 litres for 1 Star specified in Table 3.3 shall not be permitted from the 1st day of January, 2019 with a view to upgrade the minimum energy performance level of such storage type electric water heater”.

[F. No. 13/14/2014-EC (Vol.-I)]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 2902(E), dated the 8th September, 2016 and subsequently amended *vide* S.O. 1385 dated the 2nd May, 2017.